



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3193]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2018/श्रावण 25, 1940

No. 3193]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2018/SHRAVANA 25, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

का.आ. 3995(अ).—परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 20) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, सितम्बर, 2018 के पहले दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है, जब उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 6/5/2016-बीओ.II]

डॉ. मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2018

S.O. 3995(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018 (20 of 2018), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2018, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F.No. 6/5/2016-BO.II]

Dr. MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.